

# कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा अप्रैल, 2022 माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

## I. I. प्रशिक्षण और क्षमता विकास

- i. पार्थिक भर्ती के माध्यम से संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव के स्तर पर नव नियुक्त 30 उम्मीदवारों ने लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली से 'प्रवेशन प्रशिक्षण' पूरा कर लिया है। दिनांक 05.04.2022 को एक विदाई समारोह आयोजित किया गया था और कैबिनेट सचिव द्वारा प्रतिभागियों को संबोधित किया गया था।
- ii. खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय (एमओएफपीआई) के लिए 18 से 29 अप्रैल, 2022 तक प्रथम समूह "क" पुनर्धर्या क्षमता विकास कार्यक्रम (आरसीबीपी) आयोजित किया गया था, जिसमें समूह 'क' के 18 अधिकारियों ने भाग लिया था। कार्यक्रम का पाठ्यक्रम विशेष रूप से सीबीसी द्वारा किए गए गैप विश्लेषण के आधार पर तैयार किया गया था। वित्त मंत्रालय के 46 समूह "ख" अधिकारियों के लिए एक और आरसीबीपी 18 से 23 अप्रैल, 2022 तक आयोजित किया गया था। गहन कार्यक्रम में पूर्व-पाठ्यक्रम सामग्री के रूप में प्रतिभागियों को 20 घंटे की ई-सामग्री प्रदान की गई थी।
- iii. 14-19 अप्रैल, 2022 को आयोजित आरसीबीपी के लिए समूह "ख" के अधिकारियों के संबंध में प्रभाव आकलन करने के लिए आईएसटीएम द्वारा 22 अप्रैल, 2022 को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय (एमओएफपीआई) में एक पोस्ट-ट्रेनिंग सेमिनार आयोजित किया गया था। उत्तर देने वाले 72% अधिकारी प्रशिक्षुओं के तत्काल रिपोर्टिंग अधिकारी थे, और उन्होंने संरचित प्रश्नावली के माध्यम से यह सूचना दी कि "आरसीबीपी में भाग लेने के बाद प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया।
- iv. क्षमता विकास आयोग ने 26 अप्रैल, 2022 को महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में "उत्तराधिकार योजना और नेतृत्व विकास" पर लोक उद्यम चयन बोर्ड, लोक उद्यम विभाग और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ संयुक्त रूप से एक कार्यशाला का आयोजन किया।
- v. क्षमता विकास आयोग ने पंचायती राज संस्थान के कर्मचारियों के क्षमता विकास को उनकी संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना में शामिल करने में पंचायती राज मंत्रालय की मदद की जो पंचायती राज संस्थानों को बेहतर बनाने में मदद करेगी। क्षमता विकास आयोग ने काइजन इंडिया के साथ साझेदारी में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए क्षमता विकास भागीदारी के रूप में प्रक्रिया में सुधार पर एक पायलट कार्यक्रम भी शुरू किया।
- vi. क्षमता विकास आयोग ने अंतरिक्ष विभाग में क्षमता विकास पहल पर चर्चा करने के लिए 28.04.2022 को इसरो मुख्यालय का दौरा किया। सीबीसी ने प्रशिक्षण के महत्व, नागरिक केंद्रित कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और नई प्रौद्योगिकियों की पहचान के लिए क्षेत्रीय रोड मैप तैयार करने पर प्रकाश डालते हुए एक प्रस्तुति दी।

- vii. क्षमता विकास आयोग ने 30 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी (एनएसीआईएन), फरीदाबाद में सीटीआई में ई-लर्निंग पाठ्यक्रमों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए एक रोडमैप विकसित करने के लिए एक कार्यशाला की सुविधा प्रदान की।
- viii. कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति ने 11 और 12 अप्रैल, 2022 को लबासना का दौरा किया।

## II. चयन और नियुक्तियां

- i. भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 के खंड (1क) के तहत संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के सदस्य, डॉ मनोज सोनी को अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने के लिए 05.04.2022 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक या 27.06.2023 तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया जिसको दिनांक 05.04.2022 की अधिसूचना संख्या 39019/05/2018-स्था(ख) के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।
- ii. संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएलई) 2019 का परिणाम घोषित किया गया और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) से 138 उम्मीदवारों का नामांकन प्राप्त हुआ।
- iii. कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने अप्रैल 2022 में निम्नलिखित परिणाम घोषित किए हैं:
- (क) संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा 2019 का अंतिम परिणाम।
  - (ख) आशुलिपिक ग्रेड 'ग' और 'घ' परीक्षा, 2019 की कौशल परीक्षा।
  - (ग) संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएलई) 2020 का टियर- II
- iv. कर्मचारी चयन आयोग ने निम्नलिखित परीक्षाएं भी आयोजित की :
- (क) संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएलई) 2021 का टियर- I
- v. पीईएसबी, डीओपीटी ने निदेशक/सदस्य के 08 (आठ) पदों और एमडी/सीएमडी के 02 (दो) पदों के लिए विज्ञापन जारी किए। सीएमडी और निदेशक के 11 (ग्यारह) पदों के लिए चयन बैठकें आयोजित की गईं।

## III. आरक्षण मामले

- i. विशिष्ट यूआरएल (अर्थात rrcps.nic.in) के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व/नियुक्ति पर ऑनलाइन डेटा को शीघ्रता से अपलोड करने के लिए 36 मंत्रालयों/विभागों के साथ 12.04.2022 को वर्चुअल मोड में एक बैठक आयोजित की गई थी।

- ii. पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में निर्देश - केन्द्र सरकार के सभी विभागों द्वारा पदोन्नति के मामले में आरक्षण को प्रभावी करने से पहले पालन की जाने वाली प्रक्रिया दिनांक 12.04.2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/16/2019-स्था.(आरक्षण) के माध्यम से जारी की गई।

#### **IV. विशेष अभियान**

- क. अप्रैल-2022 के दौरान, 469 के बैकलॉग सहित 1237 लोक शिकायतों में से 1067 लोक शिकायतों का निवारण किया गया। रिकॉर्ड प्रबंधन के हिस्से के रूप में, 1179 फाइलों की समीक्षा की गई और 541 फाइलों को हटा दिया गया और 06 अंतर-मंत्रालयी कैबिनेट संदर्भों का निपटान किया गया।